

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2014— माघ 25, शक 1935

### भाग २

#### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 2014-एसजे-एस-1-वार्ड परिसीमन-72.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, शासन, नगरपालिका परिषद् मुलताई, जिला बैतूल के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा, अवधारित करता हैः—

#### अनुसूची

क्र. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	वार्ड का नाम (3)	वार्ड की संभावित जनसंख्या (4)
1	1	तासी वार्ड मुलताई	2190
2	2	तिलक वार्ड मुलताई	1912
3	3	भगतसिंह वार्ड मुलताई	2175
4	4	सुभाष वार्ड मुलताई	2030
5	5	शास्त्री वार्ड मुलताई	2004
6	6	गुरुसाहब वार्ड मुलताई	1947
7	7	महावीर वार्ड मुलताई	1867

(1)	(2)	(3)	(4)
8	8	विवेकानंद वार्ड मुलताई	1892
9	9	नेहरू वार्ड मुलताई	2016
10	10	आजाद वार्ड मुलताई	1859
11	11	पटेल वार्ड मुलताई	2170
12	12	गांधी वार्ड मुलताई	1857
13	13	अम्बेडकर वार्ड मुलताई	2083
14	14	राजीवगांधी वार्ड मुलताई	1863
15	15	इंदिरागांधी वार्ड मुलताई	2111

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	संभावित जनसंख्या	चर्तुर सीमा का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

1 ताप्ती वार्ड 2190 उत्तर—भागमल गजमल नागले के मकान से चलते हुए चंदोराखुर्द की दक्षिण मेड से शशीकांत हुद्वार के खेत के खसरा नं. 340 को अंदर लेते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए बुध्या व. बिरबल पवार के खसरा नं. 327 के पूर्वी भाग तक.

पूर्व—सिमैया के मकान से स्टेशन मार्ग से चलते हुए मध्य पवार के मकान को लेकर रोड पार रेल्वे फेसिंग के किनारे पूर्व की ओर चलते हुए रेल्वे लाईन पार कर अजाब मालवीय के मकान से उत्तर की ओर भागमल गजमल नागले के मकान से चंदोराखुर्द की सीमा तक.

दक्षिण—हिराचंद जैन के मकान के पीछे वाले भाग से पूर्व की ओर चलते हुए धनलाल यादव के मकान को लेते हुए ताकतसिंग सोलांकी के मकान एवं रमेश कुमार सूर्यवंशी से ओमकार डेयरी स्टेशन रोड तक.

पश्चिम—चंदोराखुर्द की सीमा की दक्षिण की ओर शशीकांत हुद्वार के खेत के खसरा नं. 340 के पश्चिम मेड से चलते हुए खसरा नं. 337 को सम्मिलित कर ईदगाह के पूर्व भाग से रेल्वे बाटण्डी से आगे रेल्वे लाईन पार कर पी.डब्ल्यू.आई. इंजीनियर निवास से पूर्व की ओर चलते हुए प्राथमिक शाला रेल्वे कालोनी को सम्मिलित कर माननीय न्यायाधीशों के एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के बंगले को शामिल करते हुए हिराचंद जैन के मकान तक.

2 तिलक वार्ड 1912 उत्तर—डॉ. कडवे के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पूर्नलाल साहू शिक्षक का मकान से लहरी आश्रम एवं शनि तालाब को लेते हुए सॉई मंदिर को शामिल करते हुए उत्तर की ओर सिविल रोड चलते हुए उत्कृष्ट स्कूल को लेते हुए सिविल लाईन के क्वार्टस को शामिल कर रेल्वे स्टेशन रोड पार कर पुलिस क्वार्टस को शामिल कर हाईस्कूल ग्राउण्ड को लेते हुए लीलाबाई वासुदेव बेले के मकान को शामिल कर पूर्न पवार के मकान को लेते हुए हिराबाई उकण्डया के मकान तक.

(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>पूर्व—</b> डॉ. उदयभान साबरे के मकान से चलते हुए चौबे महाराज की दुकान को लेते हुए बैतूल-नागपुर रोड पार कर जय स्तंभ चौक से फव्वारा चौक से स्टेशन मार्ग से चलते हुए डॉ. कड़वे के मकान तक.	
		<b>दक्षिण—</b> गोकुल पवार के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए सुरेश पवार के एवं धर्मे के मकान को लेते हुए रामकिशन लोहार के मकान को शामिल कर रमेश पाण्डे के मकान से थाना रोड पार कर नरसिंग यादव के मकान को लेते हुए गली पार कर हुद्वार के मकान को लेते हुए गोपीनीथ शर्मा के मकान को शामिल कर गुलाब सोनी के मकान तक.	
		<b>पश्चिम—</b> हिराबाई उकण्डया के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए हरिश जैन की दुकान को सम्मिलित करते हुए बैतूल-नागपुर रोड चलते हुए तासीजी की प्रथम पुलिया से लक्ष्मीचंद अग्रवाल के मकान को शामिल करते हुए नागपुर एवं मासोद रोड पार कर लक्ष्मणसिंह परिहार के मकान को शामिल करते हुए प्रेमसिंह ठाकुर के मकान तक.	
3	भगतसिंह वार्ड	2175	<b>उत्तर—</b> जिन्दा पवार के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रोड पार सागरेजी के मकान को सम्मिलित कर गणपति गायकवाड दिवानजी के मकान से रोड पार कर मंगलप्रसाद बरमैया मासाब के मकान को सम्मिलित कर सुकलाल सोलंकी के मकान को लेकर बैतूल-नागपुर रोड से चलते हुए ड्रीम लेण्ड सिटी को शामिल कर ग्राम परमण्डल की सीमा तक.
		<b>पूर्व—</b> गीताबाई पति पन्नालाल पवार के मकान से पुरानी दारू भट्टी को लेते हुए (पार्नीयर वेती स्कूल) रामकांती बाई पति रघुवीरसिंह चौहान के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए लताबाई डडोरे के मकान को सम्मिलित कर डॉ. सिसोदिया के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गुलाबराब व शिवराम साबले के मकान तक.	
		<b>दक्षिण—</b> पारेगांव रोड की सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए मधु व. जंगली के मकान एवं खेत को शामिल कर चमनसिंह ठाकुर के मकान को लेते हुए चैतराम जंगली एवं मधु जंगली के सीमेंट की दुकान तक.	
		<b>पश्चिम—</b> परमण्डल की सीमा से ड्रीम लेण्ड सिटी को लेते हुए पारेगांव की सीमा एवं रोड तक.	
4	सुभाष वार्ड	2030	<b>उत्तर—</b> अंछाराम पटेल के मकान से पश्चिम की ओर बैतूल नागपुर रोड चलते हुए हॉस्पिटल को शामिल कर सूर्या प्रोविजन के आगे नाला पार कर रामाधार भावसार के मकान तक.
		<b>पूर्व—</b> चंद्रशेखर सोनी के खेत की पूर्वी मेड़ से तासी नदी के किनारे-किनारे उत्तर की ओर चलते हुए अंछाराम पटेल के मकान तक.	
		<b>दक्षिण—</b> पारेगांव की सीमा से बिरूल रोड फलांग नं. 2/2 खसरा नं. 50 के दक्षिण भाग से पूर्व की ओर चलते हुए सातोडा नदी पार कर शिवप्रसाद अग्रवाल के खेत को सम्मिलित कर आगे चंद्रशेखर सोनी के खेत की पूर्व की मेड़ तासी नदी के बिरूल रोड की पुलिया तक.	

(1)	(2)	(3)	(4)
			<b>पश्चिम</b> —दीनदयाल व भद्र्याजी गढ़ेकर एवं हरीराम डडोरे के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए शांति देवी चैत्राम नरवरे के मकान को सम्मिलित कर पूर्व की ओर चलते हुए कान्ता बाई वराठे के मकान को लेते हुए भोला व रामदयाल सूर्यवंशी के मकान से रोड पार कर नाले के किनारे-किनारे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए टावर को लेते हुए मेड़ पार कर रूपेश सोंनी के मकान को लेकर परेगांव के किनारे परेगांव रोड पार कर पश्चिम की ओर चलते हुए मीनाबाई बांरगे के मकान एवं किराना दुकान को सम्मिलित कर गोस्वामी समाज के कब्रस्तान को सम्मिलित कर परेगांव की सीमा तक.
5	शास्त्री वार्ड	2004	<p><b>उत्तर</b>—सदाशिव जैन के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हरोडे भवन बना बोबडे के मकान से सी.सी. रोड चलते हुए के. एल. श्रीवास्तव के मकान तक वहां से मासोद रोड पार कर उत्तर की ओर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सूरजमल स्मृति भवन तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—नारायण देशमुख पेंटर के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए यशवंत बेलदार के मकान को शामिल कर रोड पार करते हुए घोड़े के मकान को सम्मिलित कर चंद्रशेखर सोंनी के मकान को लेते हुए महेन्द्र (पिलू जैन) के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—ताप्तीजी की प्रथम पुलिया से किनारे-किनारे चलते हुए बिरूल रोड तासीजी की पुलिया के किनारे तक वहां से नवनिर्मित कॉर्जी हाउस को शामिल कर बिरूल रोड से पूर्व की ओर चलते हुए मासोद रोड पार कर कैलाशचंद्र वकील के मकान को शामिल कर किसन पवांर के मकान तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—किसन पवांर के मकान की गली से चलते हुए शंकर देशमुख पटवारी के मकान तक.</p>
6	गुरुसाहब वार्ड	1947	<p><b>उत्तर</b>—गंगाधर जैन के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए बड़े मास्टर के मकान से सी.सी. रोड चलते हुए रोड पार कर सेलकरी बाबू के मकान को शामिल कर आगे चलते हुए लक्ष्मण प्रसाद मिश्र के मकान को सम्मिलित कर कृष्णराव कदम के मकान से गली पार कर बाबूराव बेले के मकान से चलते हुए मीनाबाई आंनदसिंग राजपूत के मकान को लेते हुए गली पार कर गजामल नानक पवांर के मकान को लेते हुए अंजू हरि लोहार की दुकान तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—अमरू सेठ के खेत से उत्तर की ओर चलते हुए नया बायपास मार्ग पार कर मैना बाई कालोनी को शामिल कर पुराना बायपास मार्ग पार कर नाले को कामतानाथ भार्गव के खेत की बीच की मेड के किनारे चलते हुए अर्जुन साहू की चक्की के सामने तक वहां से पुराना बायपास मार्ग पर पश्चिम की ओर चलते हुए पारडसिंग वाले के मकान को शामिल कर रोड पार कर रामभाऊ कुम्भारे के मकान को लेते हुए गंगाधर जैन के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—नथू कोडले से पश्चिम की ओर चलते हुए कहैया बोबडे के भूखण्ड को लेते हुए पुराना बायपास पार कर मासोद पम्प हाउस को शामिल करते हुए रोड पार सहदेव कुंबी के मकान से परमार मास्टर के खेत को शामिल कर विरेन्द्रनाथ गोपीनाथ भार्गव के खेत की मेड से नया बायपास मार्ग कर मेड के किनारे चलते हुए अमरू सेठ के खेत हिराखापा की सीमा तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<b>पश्चिम</b> —अमरू सेठ के खेत की मेड से पूर्व की ओर चलते हुए अमरावती रोड के किनारे तक.
7	महावीर वार्ड	1867	<p><b>उत्तर</b>—रमेश बिसराम ढीमर के मकान से (दरगाँह) के पास से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए आमना बी शेखजी के मकान से सुन्दरलाल कुम्हार के मकान से रोड पार कर छोटी मस्जिद से लेकर चिरोंजी खटीक के मकान को लेकर दिलीप राऊत के मकान से सामने की गली पार कर नवकिशोर जैसवाल के मकान को लेते हुए रमेश जैसवाल के मकान से गांधी चौक की ओर चलते हुए नवनीत चंदेल की दुकान से डॉ. अशोक भार्गव के निवास को शामिल कर से रोड पार कर पना साहू के मकान से अवस्थी महाराज के मकान को शामिल कर गली पार कर नेमाजी जैन के मकान से चलते हुए जैन मंदिर तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—मंगल साहू के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए लक्ष्या ढीमर एवं सार्वजनिक गणेश मंदिर को शामिल कर कैलाश किराना दुकान को सम्मिलित करते हुए राजू प्रजापति के मकान को लेते हुए कृष्ण किशोर जैसवाल के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—जैन मंदिर के पीछे वाले भाग से धर्मचंद जैन के मकान को शामिल करते हुए बड़े के मकान से गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बाबा कड़कार को सम्मिलित कर जैन मंदिर गली पार कर निर्मला यादोगाव कुंबी के मकान को शामिल कर पुराना बाय पास रोड तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—मंजु बेवा रमेश कुंबी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए नौ गजी बाबा की दरगाँह को शामिल करते हुए उपास्या ढीमर के मकान तक.</p> <p><b>उत्तर</b>—आजादसिंग पंजाबी की दुकान से बैतूल रोड चलते हुए जिला सहकारी बैंक की बिल्डिंग (बुटी बिल्डिंग) को सम्मिलित करते हुए गांधी चौक की ओर चलते हुए महेश शर्मा के मकान को लेते हुए रोड पार धोपाड़ मेडिकल से गली में चलते हुए शशीकांत हुद्वार के मकान को लेते हुए गिरधर यादव के मकान तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—सुनिल भार्गव के मकान से चलते हुए उत्तर की ओर कॉर्पेरेटिव सोसायटी को सम्मिलित कर बाल किशन लखरे के मकान को लेते हुए रोड पार कर सुमित शिवहरे के मकान से जैन कोल्डिंग रोड चलते हुए वैधप्रकाश अग्रवाल के मकान को शामिल कर कमलाबाई नारायण साहू के दुकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—शंकर राम माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राजा अग्रवाल के मकान से रोड पार कर योगी भार्गव के मकान को शामिल करते हुए संजय भार्गव के मकान तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—कालूराम सोनी के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए गुरुसाहब मंदिर को लेते हुए शिवाजी मराठा के मकान को लेते हुए नथू तेजी के मकान से गली में चलते हुए नामदेव गेन्दू कड़कार के मकान से चलते हुए उमरावदे मास्टर के मकान को शामिल कर रोड पार कर मदन सोनी के मकान से चलते हुए रमेश दाढ़े के मकान को शामिल कर गुलाबराव ढोड़के के मकान तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
9	नेहरू वार्ड	2016	<p><b>उत्तर—</b>ग्राम कामथ की सीमा से सूर्य नारायण तालाब को शामिल करते हुए अमरावती रोड पार कर शेख रफीक व. शे. नादर के मकान को शामिल करते हुए कलीमुद्दीन पटेल के मकान को लेते हुए अनुसया माता मंदिर को शामिल कर शेषराव सूर्यवंशी के मकान से चलते हुए कामता बाबू भार्गव के खेत की बीच की मेड़ तक.</p> <p><b>पूर्व—</b> ग्राम खरसाली की सीमा से चलते हुए श्री जी. एल. पवांर मासाब के खेत को शामिल कर नवीन बाय पास पार कर कान्ता पवांर के मकान को शामिल करते हुए रामराव मराठा के खेत के खसरा नं. 1226 को लेते हुए चिन्ध्या हरबू के खेत को लेते हुए ग्राम कामथ की सीमा तक.</p> <p><b>दक्षिण—</b>ग्राम चौथिया की सीमा से चलते हुए निम्बा बहया के खेत को शामिल कर ग्राम खरसाली की सीमा तक.</p> <p><b>पश्चिम—</b>कामतानाथ भार्गव के मकान एवं खेत के बीच के मेड़ से चलते हुए नाला पार कर अमरावती रोड सिचांई कालोनी को लेते हुए ऐनू बाई पण्डाग्रे के मकान से आगे अमरावती रोड की ओर चलते हुए अमरचंद अग्रवाल के खेत ग्राम चौथिया की सीमा तक.</p>
10	आजाद वार्ड	1859	<p><b>उत्तर—</b>धनाराम चिपड़या साहू के मकान से नागपुर बैतूल रोड पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए स्टेट बैंक को सम्मिलित करते हुए ओम वस्त्रालय (ब्रह्मा सेठ की दुकान) को लेते हुए अजय व. नन्दलाल शिवहरे की जूते की दुकान तक.</p> <p><b>पूर्व—</b> जुबैदाबी अब्दुल रज्जाक के मकान से शेख छोटे व. शेख सरदार के मकान को लेते हुए रियाज पहलवान के मकान को शामिल करते हुए धनाराम चिपड़या साहू के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण—</b>दिपक शिवहरे की दुकान से जैन कोलिङ्ग मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए शुभम किराना दुकान को सम्मिलित करते हुए कालूराम जैन की दुकान तक.</p> <p><b>पश्चिम—</b>नूर अली मुल्ला की दुकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए ओमकार साहू के मकान को शामिल करते हुए मुना कसरे के मकान से अक्तर खाँ के मकान को लेते हुए धुड़ल्या बचले की चक्की को सम्मिलित कर शेख करीम झाईवर के मकान तक.</p>
11	पटेल वार्ड	2170	<p><b>उत्तर—</b>खेड़ली रोड के पूर्व भाग में हैंडपंप से नागदेव स्थापना चंदोरा खुर्द की सीमा के दक्षिण मेड़ से हबीब खाँ का खेत ख. नं. 342 के उत्तर से पूर्व की ओर कामथ ग्राम की सीमा तक.</p> <p><b>पूर्व—</b> बैतूल नागपुर रोड नवीन हाईस्कूल से महादेव एजेन्ट के मकान को लेते हुए किशोरी जंगली पंवार के मकान को शामिल कर रोड पार करते हुए विमला बाई भैय्यालाल पंवार के मकान को लेकर गली पार कर सी.एम.ओ. बंगले को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को छोड़कर नवाब खाँ के खेत की मेड़ से चलते हुए पंचायत ट्रेनिंग को शामिल कर कामथ की सीमा से चलते हुए रेल्वे लाईन पार कर बिरजलाल पंवार एवं धोपाड़े के खेत को अंदर लेते हुए हबीब खाँ के खेत के उत्तरी भाग एवं ग्राम चंदोरा खुर्द की सीमा तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<b>दक्षिण</b> —रामराव मराठा के मकान से बैतूल-नागपुर रोड के उत्तरी भाग को अंदर लेते हुए पूर्व की ओर मस्जिद से छोटे मियाँ के मकान से नवीन हाईस्कूल के पूर्व भाग की सीमा तक.
			<b>पश्चिम</b> —चंदोराखुर्द की सीमा से खेड़ली-मुलताई रोड हैण्डपंप से दक्षिण की ओर चलते हुए गन्नू पंवार के मकान से सुधाकर धोपाड़े के मकान से अमरदास मानकर के मकान से रेल्वे गेट से लाईन पार कर रेल्वे बाउण्डी के किनारे चलते हुए नाका क्रमांक 02 को सम्मिलित कर स्टेशन रोड से पूर्व के किनारे-किनारे चलते हुए श्रीकृष्ण टाकोज से आगे रामराव मराठा के मकान तक.
12	गांधी वार्ड	1857	<b>उत्तर</b> —शेख इसराईल (कबाड़े वाला) के मकान से चलते हुए पुराना बायपास पार कर शेख पण्पू व. शेख कासम के मकान से गांधी चौक की ओर चलते हुए अजूमन स्लामिया की दुकान को शामिल करते हुए वामनराव माहोरे के मकान को लेते हुए ब्रज भूषण जैसवाल के मकान तक.
			<b>पूर्व</b> — कमलाबाई के मकान से शेख इसराईल व. शेख मेहताब (राजू) के मकान को लेते हुए शेख तकरीम व. शेख मतीन झाईवर के मकान को शामिल करते हुए शेख इस्लाम व. शेख छोटे के मकान तक.
			<b>दक्षिण</b> —गौरी बाई रामा ढीमर के मकान से चलते हुए हनीफ खाँ व. कुन्तु खाँ के मकान को लेते हुए रोड पार कर रहमान व. रमजन के मकान को शामिल करते हुए शेख यूसुफ भाई व शेख अब्बास के मकान को लेते हुए शेर मोहम्मद के मकान तक. वहां से गली पार कर साहेब खाँ झाईवर के मकान से पुराना बायपास रोड पार कर नंदू प्रजापति के मकान से मुना अमझरे के मकान को शामिल करते हुए नारायण चेन्डे के मकान से शेख मुस्ताक के मकान तक.
			<b>पश्चिम</b> —ब्रज भूषण जैसवाल की गली से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए श्याम जैसवाल के मकान को लेते हुए कुँए की बाउण्डी तक.
13	अम्बेडकर वार्ड	2083	<b>उत्तर</b> —बुध्या बीरबल पंवार के ख. नं. 327 एवं चंदोरा ग्राम की सीमा की दक्षिण मेड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए बाड़ेगांव रास्ता पार कर रामलाल प्रजापति के ख. नं. 286 ख. नं. 285 से पर मंडल रास्ता पार कर ख. नं. 254 से ख. नं. 239 को सम्मिलित कर रेल्वे लाईन तक.
			<b>पूर्व</b> — अग्रवाल पेट्रोल पम्प से उत्तर की ओर चलते हुए गिरजा बाई मालवीय के मकान से रोड पार देशमुख रेंजर के मकान को शामिल कर रोड एवं नाला पार कर रोन्या भाड़ के मकान को शामिल करते हुए इंजीनियर के मकान को शामिल कर रेल्वे लाईन पार कर पी.डब्ल्यू.आई. कार्यालय को लेकर बुध्या बीरबल पंवार के ख. नं. 327 की सीमा तक.
			<b>दक्षिण</b> —ग्राम पर मंडल की सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए दुर्घ डेयरी को शामिल कर अग्रवाल पट्रोल पम्प तक.
			<b>पश्चिम</b> —रेल्वे लाईन को अंदर लेते हुए ख. नं. 195 को सम्मिलित कर दुर्घ डेयरी से नागपुर-बैतूल रोड के उत्तर भाग तक.

(1)	(2)	(3)	(4)
14	राजीव गांधी वार्ड	1863	<p><b>उत्तर</b>—आबकारी विभाग के कार्यालय से बिरुल रोड चलते हुए खुश्याल मिस्ट्री के मकान को शामिल कर ताप्ती नदी पार कर राजेन्द्र भार्गव के खेत को सम्मिलित करते हुए नवीन बायपास पार कर ग्राम पारेगांव की सीमा तक।</p> <p><b>पूर्व</b>—पृथ्वीनाथ भार्गव की खेत की मेड़ से उत्तर की ओर चलते हुए प्रेमलाल पंवार शिक्षक के मकान को शामिल कर बिसन सोनी, जिवत्या पंवार के मकान को लेते हुए धनू तेजी के मकान को सम्मिलित करते हुए मासोद रोड पार कर मोक्षधाम द्वार को लेते हुए राजा सर्विंसिंग सेन्टर से मनोज साबले के मकान को लेकर गंगा मंदिर तक।</p> <p><b>दक्षिण</b>—पण्डाग्रे बाबू के खसरा नं. 957 मासोद रोड फलांग नं. 3/3 से मासोद रोड पार कर जसी बाई एवं भागरती बाई के खेतों को शामिल करते हुए पृथ्वीनाथ भार्गव के खेत की मेड़ हिराखापा की सीमा तक।</p> <p><b>पश्चिम</b>—बिरुल रोड फलांग नं. 2/2 के दक्षिण भाग में बाजीलाल लक्ष्मण सोनी के खसरा नं. 830 सातोडा नाला पार कर खसरा नं. 831 से खसरा नं. 835 से रास्ता पार कर अमरचंद अग्रवाल के खसरा नं. 846, 847 से ताप्ती नदी पार कर पम्प नं. 04 को लेते हुए खसरा नं. 962 एवं 966 को अंदर लेते पण्डाग्रे बाबू के 957 के दक्षिण मेड़ से मासोद रोड के फलांग नं. 3/3 तक।</p>
15	इंदिरा गांधी वार्ड	2111	<p><b>उत्तर</b>—कामथ की सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुए मजिद चौहान इकबाल लोहार के कारखाने को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को सम्मिलित करते हुए सी.सी. रोड पार कर गणेश प्रसाद सूर्यवंशी के मकान को लेते हुए मुल्ला की चक्की को लेते हुए शेख रफीक ड्राईवर के भूखण्ड तक।</p> <p><b>पूर्व</b>—मधु माहोरे के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए किसना साहू के मकान को लेते हुए बैतूल-नागपुर रोड पार कर इंद्रजीतसिंह पंजाबी के मकान एवं जमीन को सम्मिलित कर मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के ऑफिस को लेते हुए प्रतापचंद जैन के कारखाने तक।</p> <p><b>दक्षिण</b>—शेख तौफिक व. शेख के केले के गोदाम से पूर्व की ओर चलते हुए हमीद खॉ व. हातम खॉ के मकान को लेते हुए अमरावती रोड पार कर चील घर को सम्मिलित करते हुए कब्रस्तान को लेते हुए कामथ की सीमा को लेते हुए मधु माहोरे के मकान तक।</p> <p><b>पश्चिम</b>—शेख रफीक ड्राईवर के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए हनुमन्तराव लिखितकर के मकान को लेते हुए रेस्ट हाउस की बाउण्ड्री से चलते हुए बैतूल-नागपुर रोड पार कर भाजपा कार्यालय के बाजू वाले स्कूल से शेख नवाब की दुकान से गांधी चौक रोड पार कर कायुनिटी हॉल को सम्मिलित कर भद्र्या तिलन्थे के मकान को सम्मिलित कर शेष तौफिक के केले के गोदाम तक।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंघक अधिसूचना क्रमांक 72, दिनांक 31 जनवरी 2014 की अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

Betul, the 31st January 2014

No. 2014-SIS-1-Ward Parisiman-72—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 year 1961), the Government hereby determine the extent of wards of Municipal Council, Multai (Distt. Betul) as per Schedule given below :—

**SCHEDULE -1**

S. No.	Ward No.	Name of the Ward	Estimated Population
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	Tapti Ward	2190
2	2	Tilak Ward	1912
3	3	Bhagatsingh Ward	2175
4	4	Subhash Ward	2030
5	5	Shashtri Ward	2004
6	6	Guru Sahab Ward	1947
7	7	Mahavir Ward	1867
8	8	Vivekanand Ward	1892
9	9	Nehru Ward	2016
10	10	Azad Ward	1859
11	11	Patel Ward	2170
12	12	Gandhi Ward	1857
13	13	Ambedkar Ward	2083
14	14	Rajiv Gandhi Ward	1863
15	15	Indira Gandhi Ward	2111

Ward No.	Name of the Ward	Estimated Population	Particular of Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)

01	Tapti Ward	2190	<p><b>North</b>—From going to Bhagmal Gajmal Nagle's house to the south boundary of Chandora Khurd including Khasra No. 340 of Shashikant Huddar's house field, then going to the west including the east part of Khasra No. 327 of Budhya S/O Birbal Pawar.</p> <p><b>East</b>— From going to Simaiya's house to station road including the house of Madhu Pawar . To cross the road, along with the east side of railway fence then crossing the railway line the north side of Ajab Malviya's house to Bhagmal Gajmal's house including the boundary of Chandora Khurd.</p> <p><b>South</b>—From back side of Hirachand Jain's house, going to the east including Dhanlal Yadav's house, Takatsingh Solanki's house and Advocate Ramesh Suryavanshi's house to Omkar Dairy at station road.</p>
----	------------	------	--

(1)	(2)	(3)	(4)
			<b>West</b> — From the south side of the boundary of Chandora Khurd, including the west side of Khasra No. 340 of Shashikant Huddar and Khasra No. 337 . East side of Idgah including Railway boundary P.W.I. Engineer residence after crossing the railway line, going to the east including Primary School Railway Colony, Bungalows of Judges and S.D.M. (Revenue) to the house of Hirachand Jain:
02	Tilak Ward	1912	<p><b>North</b>—From Dr. Kadwe's house, going to the west including house of Pooranlal Sahu (Teacher), Lahari Aashram , Shani Pond and Sai Temple . In the north going towards civil line, including Excellence School and Civil quarters, to cross the station road, including police quarters, high school play ground, the house of Lilabai Vasudev Bele, and the house of Pooran Pawar to the house of Hirabai Ukandya.</p> <p><b>East</b>—From Dr. Udaybhan Sabre's house to the shop of Chaubey Maharaj. To cross Betul-Nagpur road, From Jai Stambh Chowk and Fawwara Chowk to Dr. Kadwe's house at station road.</p> <p><b>South</b>—From going in the east side of the house of Gokul Pawar including the house of Suresh Pawar, Dharme, Ramkishan Lohar and Ramesh Pande . To cross Police Station Road, including the house of Narsingh Yadav, to cross the gali (ravine) including the house of Huddar and Gopinath Sharma to the house of Gulab Soni .</p> <p><b>West</b>—Going to the south side of Hirabai Ukandaya's house including the shop of Harish Jain. Going on Betul Nagpur road at first bridge of Tapti, including the house of Laxmi Agrawal, to cross Nagpur and Masod road ; including Laxmansingh Parihar's house to Premsingh Thakur's house.</p> <p><b>North</b>—From, going to the west side of Jinda Pawar's house including Sagare's house. To cross the road from Gaykawad Patwari's house, including the house of Mangal Prasad Barmaiya, the house of Suklal Solanki, Dream Land City at Betul Nagpur road to the boundary of Parmandal.</p> <p><b>East</b>—From Geetabai W/O Pannalal Pawar's house including wine shop, (Parneer Velley School) and the house of Ramkantibai W/O Raghuvisingh Chouhan. Going to the north side, including the house of Latabai Dadore and the house of Sisodiya, to the house of Gulabrao S/O Shivram Sabre's house in the north.</p> <p><b>South</b>—From going to the east side of Paragaon road's boundary, including the house of and the field of Madhu S/O Janglee and the house of Chaitram Janglee to the cement shop of Madhu Janglee.</p> <p><b>West</b>—From the boundary of Parmandal to Dream Land City and road.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
04	Subhash Ward	2030	<p><b>North</b>—Going to the east side of Betul Nagpur road from Ancharam Patel's house , including Surya Provision and crossing Nala to Ramadhar Bhavsar's house.</p> <p><b>East</b>— From the east boundary of Chandrashekhar Soni's field, going along the bank of Tapti river to the house of Ancharam Patel.</p> <p><b>South</b>—From the boundary of Paregaon to Birul Road Furlong No. 2/2 . Going in the south side to east to Khasra No. 50 , crossing the Satoda river, including Shivprasad Agrawal's field, to the east side boundary of Chandrashekhar Soni's field and the bridge of Tapti at Birul Road.</p> <p><b>West</b>— From going to the south side of the house of Dindayal S/O Bhadyaji Garhekar and Hariram Dadore including the house of Shanti Devi Chaitram Narvare, going to the east, including the house of Kantabai Warathe . Crossing the road at the house of Bhola S/O Ramdayal Suryavanshi, going in the south side of Nala including Tower crossing the boundary, including the house of Rupesh Soni crossing the Paregaon Road, going in the west to Meenabai Barange's house and grocery shop to the boundary of Paregaon including graveyard of Goswami Society.</p>
5	Shastri Ward	2004	<p><b>North</b>— From going to in the west to the house of Sadashiv Jain, from Harode Bhavan Banna Bobde's house to K.L.Shrivastav's house including C.C.Road , After crossing Masod Road and going in the north including Slum Area and Surajmal Smriti Bhavan .</p> <p><b>East</b>—Going in the North , from Narayan Deshmukh's house including Yashvant Beldar's house, to cross the road, including Chandrashekhar Soni's house to Mahendra's (Pillu Jain) house.</p> <p><b>South</b>—Going to the first bridge of Tapti to the bridge of Tapti at Birul Road including newly built Kanzi House, going to the east side of Birul Road, to cross Masod Road, including Kailash Chandra Advocate's house to the house of Kisan Pawar.</p> <p><b>West</b>—From the Gali of Kisan Pawar to Shankar Deshmukh Patwari's house.</p>
6	Guru Sahab Ward	1947	<p><b>North</b>—Going to the west from the house of Gangadhar Jain's house. From Barde Master's house , crossing road including Selkari Babu's house, Laxman Prasad Mishra's house and Krishnarao Kadam's house, then crossing the Gali from Baburao Bele's house to Manabai Anandsingh Rajput's house then again crossing the Gali from Gajmal Nanak Pawar's house to Anju Hari Lohar's shop.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p><b>East</b>—Going to Amru Seth's field in the North, crossing to bypass road, including Mainabai Colony , crossing the old bypass road, going towards Arjun Sahu's flour mill along with Kanthanath Bhargav's field, From where going towards the west, including house of resident of Paradsinga and Rambhau Kumbhare's house to Gangadhar Jain's house</p> <p><b>South</b>—Going to the west including Natthu Kodle and the plot of Kanhaiya Bobde, then crossing the old bypass road including Masod Pump House , From Sahadeo Kunbi's house to Virendra Gopinath Bhargav's field including Parmar Master's field then crossing the old bypass road, going towards Amru Seth's field to the boundary of Hirakhapa.</p> <p><b>West</b>—From Amru Seth's field's east side to Amravati road.</p>
07	Mahavir Ward	1867	<p><b>North</b>—Going towards the west side from the house of Ramesh Bisram Dhimar's house near Dargah (Tomb) to Aamna B Shekh's house and Sundarlal Kumbhare's house from where crossing the road , Chhoti Mazid to Chironji Khatik's house . Crossing the Gali from Dilip rout's house including the house of Navkishare Jaiswal , From Ramesh Jaiswal's house to Navnit Chandel's shop from where including Dr. Ashok Bhargav's house , then crossing the road, from Panna Sahu's house to Jain Temple including the house of Awasthi Maharaj and Nemaji Jain.</p> <p><b>East</b>— Going towards the North from Mangal Sahu's house to lakshaya Dhimar , including Ganesh Temple , Kailash Grocery shop and Raju Prajapati's house to Krishna Kishore Jaiswal's house.</p> <p><b>South</b>— From back side of Jain Temple, from Dharamchand Jain's house going towards east from Bardes's house including Baba Kadukar then crossing the Gali of Jain Temple, including Nirmala Yadorao Kunbi's house to old bypass road.</p> <p><b>West</b>—Going towards the east side from the house of Manju Beva Ramesh Kunbi to Upashya Dheemar including Nov Gaji Baba's Tomb.</p>
08	Vivekanand Ward	1892	<p><b>North</b>—To go Betul Road from Aazadsingh Panjabi's shop, including Co-operative Bank building, from where going to Gandhi Chowk , including Mahesh Sharma's house , crossing the road where Dhopade medical store to Girdhar Yadav's house including Shashi Huddar's house.</p> <p><b>East</b>—Going towards North , from Sunil Bhargav's house including co-operative society and the house of Balkishan lakhera , then crossing the road from where Sumit Shivhare's house to Kamlabai Narayan Sahu's shop including Vaidhprakash Agrawal's house at Jain Coldrink road.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>South</b> —Going towards the east side from Shankar Mali's house to Sanjay Bhargav's house including the house of Raja Agrawal and the house of Yogi Bhargava .	
		<b>West</b> — Going towards the south from the house of Kaluram Soni including Guru Sahab Temple and Shivaji Maratha, from Natthu Teji's house to Namdev Gendu Kadukar including Umrvade Master's house to Gulabrao Dodke's house including Ramesh Dadhe's house.	
09	Nehru Ward	2016	<b>North</b> —From the boundary of Kamath at Surya Narayan Pond included to Kamta Babu Bhargav's field including the house of Shekh Rafik S/O Shekh Nadar, the house of Kalimuddin Patel, Anusuiya Mata Temple and the house of Sheshrao Suryavanshi.  <b>East</b> — Going from the boundary of Kharsali village including G.L. Pawar's field, crossing the bypass and including Kanta Pawar's house, Ramrao Maratha's field Khasra No. 1226 and Chindhya Harbu's field to the boundary of Kamath .  <b>South</b> — Going from the boundary of Chouthiya village including Nimba Bahya's field to the boundary of Kharsali.  <b>West</b> —Going from the boundary which is between the house of Kamtanath Bhargav and his field, crossing the Nala including irrigation colony, Yenu bai Pandagre's house and Amarchand Agrawal's field at Amravati Road to the boundary of Chouthiya village.
10	Aazad Ward	1859	<b>North</b> — Going from Dhanaram Chipdaya Sahu's house to the east side of Nagpur Betul Road including State Bank and Om Vastralaya to Ajay S/O Nandlal Shivhare's shoe shop.  <b>East</b> —From Jubaid bee Abdul Rajjak's house including Shekh Chhotelal S/O Shekh Sardar's house and Riyaz Pahalwan's house to the house of Dhanaram Chipada Sahu.  <b>South</b> —From Dipak Shivhare's shop, from where going towards south side to Shubham grocery shop at Jain Coldrink Marg including the shop of Kaluram Jain.  <b>West</b> — Going towards the east side from the shop of Nur Ali Mulla including the house of Omkar Sahu, From Munna Kasare's house to Shekh Karim Driver's house including the house of Akhtar Khan and the flour mill of Dhudlya Bachle.
11	Patel Ward	2170	<b>North</b> —The east side of Khedli Road from Handpump to Nagdeo Sthapana the south side of the boundary of Chandora Khurd to the North side of the field of Habib Khan Khasra No. 342 to the east side of Kamath village.

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p><b>East</b>— From Betul, Nagpur Road High School to Vimla Bai Bhaiyalal Pawar's house including Kisori Jangli Pawar's house, then crossing the road , from including CMO's Bungalow but the boundary of Navab Khan's field to Panchayat Training Centre , going towards Kamath , crossing the Railway line, including Birajlal Pawar's field and Dhopade's field to the north side of Habib Khan and the boundary of Chandora Khurd .</p> <p><b>South</b>—From Ramrao Maratha's house including the north side of Betul, Nagpur road, from where the east side of Mazid to the house of Chhote Miya and the east side of the Navin School's boundary.</p> <p><b>West</b>.—From the boundary of Chandora Khurd to south side of Khedli Multai Road Handpump where from the house of Gannu Pawar to the house of Sudhakar Dhopade and Amardas Mankar's house from where crossing the railway gate going along with Railway boundary including Naka No 2 going towards east side of Railway Station road from Krishna Takies to the house of Ramrao Maratha.</p>
12	Gandhi Ward	1857	<p><b>North</b> — From Shekh Ishmail (Junk dealer)'s house , crossing the old bypass, from Shekh Pappu S/O Shekh Kasam's house to Gandhi Chowk including the shop of Anjuman Slamiya and the house of Wamanrao Mahore to Braj Bhushan Jaiswal.</p> <p><b>East</b>— From Kamlabai's house including the house of Shekh Israil S/O Shekh Mehtab (Raju) , and the house of Shekh Takrim S/O Shekh Matin Driver to the house of Shekh Ismail S/O Shekh Chhote.</p> <p><b>South</b>—From Gouribai Rama Dheemar's house including Hanif Khan S/O Kunnu Khan's house crossing road, including the house of Rahman S/O Ramjan and Shekh Yusuf Bhai S/O Shekh Abbash to the house of Sher Mohammad. From where crossing the road, the house of Saheb Khan driver including the old bypass road, from the house of Nandu Prajapati to Munna Amjhare's house, including Narayan Chende's house to the house of Shekh Mustak.</p> <p><b>West</b>—From the Gali of Brajbhushan Jaiswal to Shyam Jaiswal including the boundary of well .</p>
13	Ambedkar Ward	2083	<p><b>North</b>— From Khasra No. 327 of Budhya Pawar and the south boundary of Chandora to the west side of Badegaon road, from Khasra No. 286 of Ramlal Prajapati to Khasra No. 285 including Khasra No. 254 and Khasra No. 239 crossing Parmandal Road to Railway line.</p> <p><b>East</b>— Going to north side of Agrawal Petrol Pump from Girija Malviya's house including Deshmukh Ranger's house Ronya Bhau's house after crossing the Nala Ganthe Engineer's house and PWI office after crossing railway line to Khasra No. 327 of Budhya Birbal Pawar.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Rajiv Gandhi Ward	1863	<p><b>South</b>— From the east side of Parmandal boundary to Agrawal Petrol Pump including Milk Dairy.</p> <p><b>West</b>— From milk dairy including railway line and Khasra No. 195 to the north side of Nagpur road.</p> <p><b>North</b>—From excise office to the house of Khushyal Mistri at Birul Road crossing the Tapti river, including the field of Rajendra Bhargav, crossing the new bypass road to the boundary of Paregaon.</p> <p><b>East</b>— From the north side of Prithvinath Bhargav's field's boundary including Premlal Pawar teacher's house, Bisan Soni , Jivtya Pawar and Dhannu Teji's house crossing Masod Road , including Moksha Dham Gate, Raja Servicing Centre and Manoj Sable's house to Ganga Mandir.</p> <p><b>South</b>—From Pandagre Babu's Khasra No. 957 Masod Road Furlong No. 3/3 to the boundary of Prithvinath Bhargav's field at the Heerakhapa boundary including Jasibai's field after crossing the Masod Road.</p> <p><b>West</b>— From the south side of Furlong No. 2/2 at Birul Road, Bajilal Laxman Soni's Khasra No. 830 crossing the Satoda Nala Khasra No. 831 to Khasra No. 835 crossing the road, from Khasra No. 846, 847 of Amarchand Agrawal to the south side of forlons No. 3/3 , including Pump No.4, Khasra No. 962 and 966 and Khasra No. 957 of Pandagre Babu after crossing the Tapti river.</p>
15	Indira Gandhi Ward	2111	<p><b>North</b>—From the west side of Kamath boundary, including Mazid Chouhan, Iqbal Lohar's industry and housing board colony crossing the c.c. Road from Ganesh Prasad Suryavanshi's house to Shekh Rafik driver's house including Mulla's flour mill .</p> <p><b>East</b>— From the house of Madhu Mahore , going towards north side including Kisna Sahu's house, crossing Betul, Nagpur Road to the house of Indrajeetsingh Panjabi and land to the industry of Pratapchand Jain including MPEB office.</p> <p><b>South</b>—From the godown of banana of Shekgh Taufik S/O Shekh Rafik including the house of Hamid Khan S/O Hatam Kha while going towards the east crossing Amravati Road including Postmardem house (Chilghar) and the boundary of Kamath to the house of Madhu Mahore.</p> <p><b>West</b>—Going towards the south side of Shekh Rafik driver, including the house of Hanumantrao Likhitkar , going through rest house boundary crossing Betul, Nagpur road , including the Govt. School beside the BJP office, the shop of Shekh Navab , Community Hall and the house of Bhadya Tilanthe to Toufik's banana godown.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJESH PRASAD MISHRA, Collector & Ex-officio Dy.Secy.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. इूडा-वार्ड विभाजन-2014-134.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, नवगठित नगर परिषद् शाढ़ौरा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

## अनुसूची

क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	जनसंख्या			चतुर्थ सीमा (6)
		कुल (3)	अ.जा. (4)	अ.ज.जा. (5)	
1	गांधी नगर वार्ड	797	305	266	उत्तर—झागर गांव पूर्व—बगुल्या रोड दक्षिण—रेलवे लाईन पश्चिम—वेचिराग रुसल्ला
2	स्टेशन वार्ड	731	435	11	उत्तर—रेलवे स्टेशन पूर्व—तालाब दक्षिण—अशोकनगर गुना रोड पश्चिम—सेमरीशाहवाद
3	माता मोहल्ला हरिजन बस्ती वार्ड	660	561	निल	उत्तर—तालाब पूर्व—खडिया को रास्ता दक्षिण—पुलिस थाना पश्चिम—नईसराय सड़क
4	नारायण दास वार्ड	700	01	निल	उत्तर—तालाब पूर्व—शिव मन्दिर दक्षिण—खडिया मोहल्ला का रास्ता पश्चिम—हरिजन बस्ती
5	महल वार्ड	641	निल	निल	उत्तर—रिलांयस टावर पूर्व—सदर बाजार का रास्ता दक्षिण—अशोकनगर गुना रोड पश्चिम—नईसराय सड़क
6	पंडापुरा वार्ड	645	65	14	उत्तर—कन्या शा. भवन पूर्व—सदर बाजार दक्षिण—कुंआ पश्चिम—महल मोहल्ला की खुली जगह
7	महावीर वार्ड	716	23	निल	उत्तर—पंडापुरा पूर्व—कृष्ण चौराहा दक्षिण—इन्द्रा आवास पश्चिम—पुलिस थाना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	इंदिरा नगर वार्ड	797	333	336	उत्तर—अशोकनगर गुना रोड पूर्व—अमोदा रोड दक्षिण—पिपरोल गांव पश्चिम—इंदिरा आवास का शेष भाग
9	टेकरी वार्ड	795	64	44	उत्तर—अशोकनगर गुना रोड पूर्व—टेकरी रोड दक्षिण—छात्रावास भवन पश्चिम—इंदिरा आवास
10	मेला ग्राउण्ड वार्ड	769	44	77	उत्तर—अशोकनगर गुना रोड पूर्व—रेल्वे चौकी दक्षिण—बामोरी ताल पश्चिम—अमोदा रोड
11	आजाद वार्ड	604	302	निल	उत्तर—रेल्वे लाईन पूर्व—तालाब दक्षिण—शिव मंदिर, कुण्ड मोहल्ला पश्चिम—नईसराय सड़क
12	मोलाना वार्ड	689	127	05	उत्तर.—मस्जिद पूर्व—खटीक मोहल्ला दक्षिण—सोनी मंदिर पश्चिम—बैंक
13	मिल्क चौकी वार्ड	723	44	निल	उत्तर—माता मंदिर पूर्व—सोनी मंदिर दक्षिण—महल मोहल्ला पश्चिम—वनिया कुंआ
14	शिव वार्ड	609	59	निल	उत्तर—तालाब पूर्व—कुजढा मोहल्ला दक्षिण—माता मंदिर पश्चिम—शिव मंदिर
15	श्रीकृष्ण वार्ड	745	121	04	उत्तर—बाजार के पीछे नाला पूर्व—रेल्वे फाटक दक्षिण—अशोकनगर गुना रोड पश्चिम—सब्जी बाजार
योग . .		10621	2484	757	

अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. डूडा-2014-140.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तातम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, नगरपालिका परिषद् अशोकनगर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

क्रमांक	वार्ड का नाम	जनसंख्या			चतुर्थ सीमा
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संजय गांधी वार्ड	3697	518	72	उत्तर—कैंची बीड़ी से होते हुए विनोद ओझा, जगदीश शर्मा के अंतिम मकान तक.  पूर्व—जगदीश शर्मा के मकान से होते हुए, कमल सिंह अहिरवार, नेहरू डिग्री कालेज, हनुमान मंदिर, एल.आई.सी. के पास शिवराम रघुवंशी के मकान से पश्च चिकित्सालय तक.  दक्षिण—पश्च चिकित्सालय से रेल्वे लाइन होते हुए रेल्वे स्टेशन तक.  पश्चिम—रेल्वे स्टेशन से होते हुए बायपास गुना रोड, महेन्द्र ट्रैक्टर, कैंची बीड़ी अंतिम सीमा तक.
2	देवी गायत्री वार्ड	3762	845	602	उत्तर—गोराघाट की सीमा से महेन्द्र हरिजन के मकान तक  पूर्व—महेन्द्र हरिजन के मकान से होते हुए यादव कालोनी, बायपास रोड क्रास करते हुए आदर्श बाल विद्या मंदिर, कन्हैयाराम साहू के मकान तक.  दक्षिण—आदर्श बाल विद्या मंदिर, कन्हैयाराम साहू के मकान से होते हुए राहुल केवट का मकान, टीचर कालोनी, सिकन्दर खान के मकान तक.  पश्चिम—सिकन्दर खान के मकान से होते हुए मंदसौर मिल, आर.टी.ओ. आफिस, गोराघाट की अंतिम सीमा तक.
3	रविशंकर वार्ड	3729	266	67	उत्तर—प्रदीप माथुर का मकान, बायपास रोड होते हुए वेदान्त भवन के सामने राजेश शर्मा का अंतिम मकान.  पूर्व—राजेश शर्मा के मकान से बायपास रोड होते हुए दूरसंचार, वेदान्त भवन, सुंदरलाल का मकान, लता खेर के मकान की सीमा तक.  दक्षिण—लता खेर के मकान से होते हुए ईसागढ़ रोड, महात्मा का बाड़ा तक.  पश्चिम—महात्मा के बाड़े से होते हुए राजधर सिंह के मकान, ओम कालोनी, प्रदीप माथुर के मकान तक.

4	मौलाना आजाद वार्ड	3672	384	17	<p><b>उत्तर</b>—तुलाराम के मकान से होते हुए, पछाड़ी खेडा रोड, लालाराम देवपाल के मकान, श्री अशोक पटेल का भवन, नहर तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—अशोक पटेल के मकान से कमलदास के मकान से कोलुआ रोड पर हरि लम्बरदार के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—हरिलम्बदार के मकान से, नया बस स्टेण्ड, लेक सिटी, तुलसी सरोवर कालोनी, शनिदेव तिराहा, सोनी कालोनी होते हुए, केवलचंद भूसा वालों के मकान तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—केवलचंद भूसा वाले के मकान, डॉ. डी. के. जैन के मकान से होते हुए तुलाराम के मकान तक.</p>
5	गोखले वार्ड	3901	1200	27	<p><b>उत्तर</b>—वायपास रोड के पास बोडिंग हाउस, शांति बिहार, रिलायंस पेट्रोल पम्प, धर्म कांटा, कोलुआ शंकरजी के मंदिर तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—कोलुआ रोड शंकर जी के मंदिर से होते हुए बसीर खां का मकान, माता मंदिर को अंदर लेते हुए, द्वारका प्रसाद के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—द्वारका प्रसाद के मकान से रेलवे लाइन के समीप, कृषि उपज मण्डी होते हुए शासकीय अस्पताल तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—शासकीय अस्पताल से दुबे कालोनी को अंदर लेते हुए, बोडिंग हाउस के अंतिम सीमा तक.</p>
6	विवेकानंद वार्ड	3862	1048	28	<p><b>उत्तर</b>—श्री देवीसिंह चंदेल के मकान से अंदर इन्द्रीश के मकान तक.</p> <p><b>पूर्व</b>—इन्द्रीश के मकान से कोलुआ रोड पार करते हुए शंकर कालोनी में स्थित सुरेश सेन के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—सुरेश सेन के मकान से सुखलाल अहिरवार के मकान तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—सुखलाल अहिरवार के मकान से मिन्दा के बगीचा से कोलुआ रोड को पार करके, रामजी लाल शर्मा से आगे देवीसिंह चंदेल के मकान तक.</p>
7	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	3901	1378	04	<p><b>उत्तर</b>—कोलुआ रोड पर शंकर जी के मंदिर से आगे फूल सिंह के मकान से मिन्दा के बगीचे वाला भाग.</p> <p><b>पूर्व</b>—मिन्दा के बगीचे के पास, गली में से अंदर गौड़ बाबा मंदिर, भरोसी के मकान, रामचरण का मकान, वीरेन्द्र रजक का मकान, श्री कमलेश लोधी के मकान तक.</p> <p><b>दक्षिण</b>—कमलेश लोधी के मकान से होते हुए, वेयर हाउस के पीछे नन्हूलाल के मकान तक.</p> <p><b>पश्चिम</b>—नन्हूलाल के मकान से शंकरजी के मंदिर से आगे फूल सिंह के मकान तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	3702	1190	110	<p>उत्तर—हरिओम पाठक का मकान, सत्यनारायण शर्मा का मकान, रेलवे लाईन, ओव्हर ब्रिज के नीचे से ऊर्जा कालोनी होते हुए, गंगाराम अहिरवार का मकान, बौद्ध बिहार मंदिर तक.</p> <p>पूर्व—बौद्ध बिहार मंदिर से रेलवे लाईन के पास भगवत कन्डेक्टर के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—कन्डेक्टर के मकान से प्रस्तावित नवीन वायपास पर रमेश श्रीवास्तव के मकान, त्रिदेव मंदिर तक.</p> <p>पश्चिम—त्रिदेव मंदिर से एस. पी. ऑफिस, पॉलीटेक्निक कालेज, विदिशा रोड पर कमल पटेल का मकान, विदिशा रोड वायपास तिराहा से आगे हरिओम पाठक के मकान तक.</p>
9	शंकराचार्य वार्ड	4092	710	72	<p>उत्तर—राम किशोर बोहरे के मकान से होते हुए बोहरे कालोनी में अंदर घनश्याम शर्मा के मकान को अंदर लेते हुए, गुलाब खां के मकान तक.</p> <p>पूर्व—गुलाब खां के मकान से अंदर जाते हुए भगवत सिंह रघुवंशी के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—भगवत सिंह के मकान से रामकुमार कोरी के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—रामकुमार कोरी के मकान से आगे विदिशा रोड से जाते हुए रामकिशोर बोहरे के मकान तक.</p>
10	शशीन्द्र वार्ड	3658	221	10	<p>उत्तर—नवाव खां के मकान से रेलवे लाईन क्रासिंग तक</p> <p>पूर्व—नवाव खां के मकान से रेलवे लाईन, डॉ. कोटा वाला दवाखाना तक.</p> <p>दक्षिण—डॉ. कोटा वाला दवाखाना से गिरधारी चक्की तक</p> <p>पश्चिम—विदिशा रोड पर गिरधारी चक्की से, डॉ. अम्बेडकर पार्क जगदीश श्रीवास्तव के मकान से, नवाव खां के मकान तक.</p>
11	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	3421	181	08	<p>उत्तर—रेलवे फाटक से लक्ष्मण हरिजन के मकान तक</p> <p>पूर्व—लक्ष्मण हरिजन के मकान से पुराना बस स्टेण्ड बृजमोहन दुबे के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—बृजमोहन दुबे के मकान से पाराशर गली से होते हुए, द्वारकाप्रसाद बोहरे के मकान से नेमीचंद जैन के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—पुराने बाजार से नेमीचंद जैन के मकान से, चांदसी अस्पताल पुरानी पुलिस स्टेशन को अंदर लेते हुए गांधी पार्क से होते हुए गुरुद्वारा, नया ओव्हर ब्रिज, रेलवे फाटक तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	भगतसिंह वार्ड	3550	1799	00	<p>उत्तर—हरिकिशन कोरी के मकान को अंदर लेते हुए लम्बरदार गली से विदिशा रोड पर स्थित राजेन्द्र सेठी के मकान तक.</p> <p>पूर्व—विदिशा रोड पर स्थित राजेन्द्र सेठी के मकान को अंदर लेते हुए विदिशा रोड से आगे हा. से. मिलन पब्लिक स्कूल तक.</p> <p>दक्षिण—हा. से. मिलन पब्लिक स्कूल से मुन्नालाल के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—मुन्नालाल के मकान से होते हुए, रमेश सरगौया के मकान बाल्योंक मंदिर से होते हुए लम्बरदार गली, हरिकिशन कोरी के मकान तक.</p>
13	देवी जी वार्ड	3574	520	09	<p>उत्तर—पी.टी.आई. रमेश सोनी के मकान से गोविंदलाल शर्मा का मकान, किरण शिवहरे तक.</p> <p>पूर्व—किरण शिवहरे के मकान से विदिशा रोड पर राजेन्द्र दुबे के मकान को अंदर लेते हुए पवन कुमार शर्मा के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—पवन कुमार शर्मा के मकान से होते हुए भजन लाल चिडार के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—भजनलाल चिडार के मकान से पी.टी.आई. रमेश सोनी के मकान तक.</p>
14	इंदिरा गांधी वार्ड	3441	591	11	<p>उत्तर—अवधनारायण शर्मा, मरघट शाला के पीछे से शशेन्द्र गली नं. 1 तक सुरेन्द्र नामदेव के मकान तक.</p> <p>पूर्व—सुरेन्द्र नामदेव के मकान, अमान सिंह अहिरखार से सरस्वती स्कूल तक.</p> <p>दक्षिण—सरस्वती स्कूल आरोन रोड पर जाते हुए, राजेन्द्र ओझा के मकान से होते हुए रमाशंकर शर्मा के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—रमाशंकर शर्मा के मकान से लल्लू जोगी के मकान होते हुए, अवधनारायण शर्मा के मकान तक.</p>
15	लक्ष्मी बाई वार्ड	3857	372	00	<p>उत्तर—आरोन रोड पर खिलन सिंह का मकान, चन्द्रेश साहू का मकान, नारायण प्रसाद शर्मा के मकान हिरिया के टपरा को अंदर लेते हुए, छात्रावास, खाद बीज निगम, लक्ष्मण सिंह के मकान तक.</p> <p>पूर्व—लक्ष्मण सिंह के मकान से हैण्डपम्प के पास खिलन सिंह के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—हैण्डपम्प के पास, खिलन सिंह के मकान, आईस्क्रीम फैक्ट्री रमेश कुशवाह का मकान से हरिराम कुशवाह के मकान तक.</p> <p>पश्चिम—हरिराम कुशवाह का मकान, खुली भूमि से होते हुए, खिलन सिंह के मकान तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	गांधी वार्ड	3977	204	04	<p>उत्तर—महेन्द्र जैन के मकान से मेहमूद खां बगीचे को लेते हुए राजाराम नगेश्वी मकान तिराहे तक.</p> <p>पूर्व—राजाराम नगेश्वी के मकान से होते हुए छात्रावास, चिन्ताहरण हमुमान मंदिर से होते हुए, प्रीतम सरदार के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—प्रीतम सरदार के मकान से खुली भूमि तक</p> <p>पश्चिम—रामप्रसाद ओझा का मकान.</p>
17	जवाहर वार्ड	3680	245	00	<p>उत्तर—जैन भवन से होते हुए, द्वारका पण्डा का मकान, सुराना चौराहा होते हुए, प्रोशेसन रोड, प्रवीण शर्मा का मकान ओमप्रकाश चौधरी के मकान तक.</p> <p>पूर्व—ओमप्रकाश चौधरी के मकान से गांव जैन मंदिर, तोमर का बाड़ा, जगदीश प्रसाद शर्मा, हवेली से होते हुए, बाबूलाल ओझा के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—बाबूलाल ओझा के मकान से होते हुए, नगरपालिका दुकान, अम्बेडकर भवन तक.</p> <p>पश्चिम—अम्बेडकर भवन से होते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को अंदर लेते हुए, राजेन्द्र जैन का मकान, जैन भवन तक.</p>
18	सुभाष वार्ड	3833	00	00	<p>उत्तर—इंदिरा पार्क से होते हुए, भगत सिंह मार्ग पर बाबूलाल बरोदिया वालों के मकान से, रघुवंशी फर्नीचर, गणेश मार्केट अंतिम गांधी पार्क कुनाल मेडिकल तक.</p> <p>पूर्व—गांधी पार्क कुनाल मेडिकल से होते हुए, पुराना बाजार, प्रोशेसन रोड, शंकर जी के मंदिर से होते हुए बैजनाथ साहू का मकान, मिलन पब्लिक स्कूल को अंदर लेते हुए अजय मिश्रा, चन्द्रशेखर के मकान तक.</p> <p>दक्षिण—चन्द्रशेखर के मकान से कस्तूरबा गली से होते हुए, चौपडा कुआ प्रोशेसन रोड, सुराना चौराहे के सामने हनुमान मंदिर तक.</p> <p>पश्चिम—हनुमान मंदिर से प्रेमनारायण सोनी के मकान, गर्ल्स स्कूल, गणेश मोहल्ला अंदर लेते हुए इंदिरा पार्क बरोदिया वस्त्रालय तक.</p>
19	महावीर वार्ड	3555	58	08	<p>उत्तर—पंजाबी कालोनी में रेलवे लाईन के पास पंजाबी कालोनी में अजयकान्त के मकान को अन्दर लेते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए माल गोदाम होते हुए, रेलवे क्वार्टर तक.</p> <p>पूर्व—रेलवे क्वार्टर से अग्रवाल लॉज, चंदेरी पान भण्डार, गांधी पार्क पर नगरपालिका की 2 मंजिला दुकान, रेस्ट हाउस, पोस्ट ऑफिस, न्यू मार्केट, रेलवे स्टेशन तक.</p> <p>दक्षिण—गांधी पार्क गोल बिल्डिंग से होते हुए, नेहरू पार्क वाचनालय, केवलचंद जैन लालोनी के मकान तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<b>पश्चिम—केवलचंद जैन लालोनी वाले के मकान को अंदर लेते हुए, बिलाला मिल रोड पर से अंदर जाते हुए, भगवान सिंह लोधी के मकान से आगे अजयकांत के मकान पंजाबी कालोनी तक.</b>
20	पटेल वार्ड	3825	197	00	<b>उत्तर—लक्ष्मीनारायण लोधी का मकान, गली में फूलजी का मकान, बाबू अशोक के मकान तक.</b> <b>पूर्व—बाबू अशोक के मकान से श्रेयांस चौधरी का मकान, स्वामी जी की बगिया को लेते हुए, श्वेताम्बर जैन मंदिर के पास राजेश कुमार, नीलेश कुमार जैन के मकान से बगुल्या वाले के मकान से सीधे शांतिनाथ मंदिर, प्रकाशचंद जैन के मकान तक.</b> <b>दक्षिण—प्रकाशचंद जैन का मकान, खुली भूमि की अंतिम सीमा तक.</b> <b>पश्चिम—खुली भूमि, राजेश सेठ के मकान से लक्ष्मीनारायण लोधी के मकान तक.</b>
21	गौशाला वार्ड	3617	573	00	<b>उत्तर—धुंधा प्रजापति के मकान से होते हुए, सबदल सिंह के मकान, गौशाला, हनुमान स्कूल को अंदर लेते हुए सरस्वती स्कूल, वर्धमान स्कूल, रूपसिंह ओझा के मकान तक.</b> <b>पूर्व—रूपसिंह ओझा के मकान से रमेशचंद गुप्ता के मकान, ओमप्रकाश पुरी, शिक्षक के मकान तक.</b> <b>दक्षिण—ओमप्रकाश पुरी शिक्षक के मकान, गजिया बाई के मकान, अमरचंद साहू के मकान तक.</b> <b>पश्चिम—अमरचंद साहू के मकान, बाबूलाल लोधी का मकान होते हुए, धुंधा प्रजापति के मकान तक.</b>
22	राजीव वार्ड	3522	184	14	<b>उत्तर—रेलवे लाईन के पास नौघरा कालोनी में मुनालाल धोबी के मकान से होते हुए, महेन्द्र केवट के मकान तक.</b> <b>पूर्व—महेन्द्र केवल के मकान से रामेश्वर लोधी का मकान, नेमीचंद जैन का मकान मोहरी कम्प्यूटर तक.</b> <b>दक्षिण—नेमीचंद जैन का मकान मोहरी कम्प्यूटर, स्वाध्याय मंदिर, डॉ. गोयल का मकान, लाईफलाईन अस्पताल होते हुए, छैघरा पर मस्जिद के पास नियाज मोहम्मद के मकान तक.</b> <b>पश्चिम—मस्जिद के पास नियाज मोहम्मद के मकान से छैघरा कालोनी से होते हुए रेलवे लाईन के पास नौघरा कालोनी में मुनालाल धोबी के मकान तक.</b>

महायोग . . 81828 12684 1063

आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर.